

स्कोरकार्ड (Scorecard) का परिचय

विक्टोरियाई आवासीय दक्षता स्कोरकार्ड (Victorian Residential Efficiency Scorecard) [स्कोरकार्ड (Scorecard)] एक विशिष्ट कार्यक्रम है जो आपके घर के लिए ऊर्जा रेटिंग प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि फ्रिज या वॉशिंग मशीन की स्टार रेटिंग होती है, स्कोरकार्ड रेटिंग यह दर्शाती है कि आपके घर के विभिन्न भागों द्वारा कितनी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है।


स्कोरकार्ड (Scorecard) स्टार रेटिंग कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का पहला कार्यक्रम है। आकलन आपके घर के लिए विशिष्ट तौर पर तैयार किए जाते हैं और इन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित आकलनकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है।

स्टार रेटिंग समझने में आसान स्लैपशॉट (आशुचित्र) प्रदान करती है कि आपका घर विक्टोरिया के ठंडे और गर्म मौसम का सामना कैसे करता है। इससे आपको अपने घर के ऊर्जा प्रयोग की तुलना आपके जैसे अन्य घरों से करने की क्षमता मिलती है और आप जल्द ही यह देख पाते हैं कि आप बिल पर पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं।

स्कोरकार्ड (Scorecard) आकलन निम्नलिखित द्वारा आपकी मदद कर सकते हैं:

- आपके घर में ऊर्जा की लागत कम करने के लिए अपग्रेड कार्य करने का सुझाव देकर
- गर्मियों में आपके आराम और स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए गर्म मौसम की रेटिंग तथा अपग्रेड कार्यों के विकल्प प्रदान करके।

अपने स्कोरकार्ड (Scorecard) आकलन के लिए साइन-अप करने के लिए, help.scorecard@delwp.vic.gov.au पर ई-मेल या **136 186** पर फोन करें।



स्कोरकार्ड (Scorecard) का परिचय

आपके घर के लिए ऊर्जा स्टार रेटिंग

स्कोरकार्ड (Scorecard) आपके घर के लिए एक से दस के पैमाने पर ऊर्जा स्टार रेटिंग प्रदान करता है। उच्च स्टार रेटिंग का अर्थ है कि निम्न स्टार रेटिंग वाले घर की तुलना में आपका घर कम ऊर्जा का प्रयोग करेगा, और इसका संचालन करने में कम खर्च आएगा।

इसलिए जिन घरों की स्टार रेटिंग उच्च आती है, वे अपना बिजली का बिल औसतन घर से कम होने की उम्मीद कर सकते हैं।

वर्तमान में, औसतन विक्टोरियाई घर को तीन-स्टार की रेटिंग प्राप्त है, इसलिए आम-तौर पर सस्ते और सामान्य तरीके होते हैं जिससे आप अपने घर की रेटिंग बढ़ा सकते हैं और अपने बिजली के बिल पर कम खर्च कर सकते हैं।

अपने आकलन के लिए क्या उम्मीद करें

मान्यता-प्राप्त आकलनकर्ता संपूर्ण ऑन-साइट आकलन करने के लिए आपके घर आएगा। वे इन क्षेत्रों से सम्बन्धित डाटा एकत्रित करेंगे: निर्माण सामग्री, आपका हॉट वाटर सिस्टम, हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग और कोई रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत।

आकलन की समाप्ति पर, आकलनकर्ता आपके घर की स्टार रेटिंग के बारे में आपसे बातचीत करेगा और आपको आपका स्कोरकार्ड (Scorecard) सर्टिफिकेट दिखाएगा। सर्टिफिकेट आपको बाद में भी भेजा जाएगा, गुणवत्ता जांच पूरी किए जाने के पश्चात।

आपका सर्टिफिकेट:

- 10 में से प्राप्त आपके घर की स्टार रेटिंग दर्शाता है
- आपके घर के विभिन्न मूलतत्वों को रेटिंग देता है, जैसे कि इमारत और मुख्य उपकरण
- गर्मी के मौसम में आपके घर के प्रदर्शन को रेटिंग देता है
- आपके घर की ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने के लिए आभ्यासिक विकल्प प्रदान करता है।

ऐसा ऊर्जा संबंधी परामर्श जिसपर आप भरोसा कर सकते हैं

यह कार्यक्रम पूरे विक्टोरिया में भाग लेने वाली लाभ-निरपेक्ष संस्थाओं और स्थानीय काउंसिलों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो कि इस सेवा के लिए कुछ शुल्क लेंगी।

केवल मान्यता-प्राप्त आकलनकर्ता ही स्कोरकार्ड आकलन प्रदान कर सकते हैं। यदि आकलनकर्ता मान्यता-प्राप्त करना चाहते हैं तो विक्टोरियाई सरकार ने कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानक लागू किए हैं जिन्हें उनको पूरा करना होगा। आप स्कोरकार्ड वेबसाइट पर ये मानक देख सकते हैं।

पहले आकलनकर्ताओं ने मई 2017 में आकलन शुरू किए थे। जैसे-जैसे वर्ष के दौरान और अधिक आकलनकर्ताओं को मान्यता प्राप्त होगी, वैसे-वैसे और अधिक घर-परिवार कार्यक्रम तक पहुँच प्राप्त कर पाएँगे।

साइन अप कैसे करें

अपनी रूचि रजिस्टर करने के लिए, वेबसाइट:

www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard देखें।

आप **136 186** पर फोन या

help.scorecard@delwp.vic.gov.au पर ई-मेल भी कर सकते हैं।